



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 9] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 2—मार्च 8, 2013 (फाल्गुन 11, 1934)
No. 9] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 2—MARCH 8, 2013 (PHALGUNA 11, 1934)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public
Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the
Government of India]

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110069, दिनांक 6 फरवरी 2013

सं. ए. 32014/01/2011-प्रशा. III--राष्ट्रपति, सं. लो.से.आ. के के.
सचि.से. संवर्ग के निम्नलिखित नियमित सहायकों की अनुभाग अधिकारी
के रूप में तदर्थ पदोन्नति की अवधि को दिनांक 01.01.2013 से 30.06.
2013 तक अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, आगे बढ़ाते हैं :--

क्र. सं. नाम	अभियुक्तियां	
1	2	3
(श्री/श्रीमती/सुश्री)		
1.	ए. एस. शौकीन	
2.	अमर सिंह	
3.	अरूण कुमार-I	
4.	अशोक कुमार कुंदल	

1	2	3
5. बी. बी. शर्मा		
6. बी. एस. छोंकर		
7. बी. एस. पठनिया		
8. भास्कर सील		
9. बिमला सचदेवा		
10. सी. एस. आहूजा		
11. डी. एस. कोली		
12. डी. आर. मदान		
13. डी. के. कंग		
14. दर्शन लाल		

31.03.2013 तक जैसाकि वे
दिनांक 31.03.2013 को अधिवर्तिता
पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

1	2	3	1	2	3
15.	दिनेश शर्मा		44.	रनबीर सिंह-I	
16.	गौतम बोस		45.	एस. भट्टाचार्य	
17.	गोवर्धन लाल		46.	एस. के. शर्मा-I	
18.	गुलशन चन्द		47.	एस. आर. भट्टाचार्य	
19.	हनुमान प्रसाद		48.	एस. एल. अशोदिया	
20.	हरी राम मीणा		49.	एस. पी. बिष्ट	
21.	इन्द्रजीत सिंह		50.	सावित्री कुमारी	
22.	जे. सी. गाबा		51.	शैलेन्द्र कुमार	
23.	जे. सी. कटोच		52.	शांति लता टोप्पो	
24.	जे. पी. शाह		53.	सुभाष चन्द्र	
25.	जगजीत कौर		54.	सुधीर कुमार	
26.	के. सी. गौड़		55.	सुजीत साहा	
27.	कल्पना विराट		56.	सुनीता आनंद	
28.	कान्ता रानी		57.	सुशीला इक्का	
29.	किरण दुग्गल	31.01.2013 तक जैसाकि वे दिनांक 31.01.2013 को अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हो रही हैं।	58.	टिन्दुस सोरेंग	
30.	कुंतला		59.	वीना मदान	
31.	मुकेश कुमार		60.	वीना सिंह	
32.	एन. के. शर्मा		61.	विक्रान्त वर्मा	
33.	एन. आर. जोरवाल		62.	वीरेन सिंह	
34.	एन. के. गुप्ता		63.	डॉ. विवेक द्विवेदी	
35.	नीरज कुमार-II		64.	सचिन कुमार	
36.	निर्मल दास		65.	अशोक कुमार	
37.	पूरन सिंह-II		66.	अनिल कुमार रॉय	
38.	पुष्पा पिपलानी		67.	राम रशिक मंडल	
39.	पुष्पा रानी		68.	कंवर बलवंत राव	
40.	आर. सी. शर्मा	31.03.2013 तक जैसाकि वे दिनांक 31.03.2013 को अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं।	69.	महेश चन्द्र	
41.	राज पाल कैन		70.	सरोज कुजूर	
42.	राजेश गुप्ता		71.	रोहिणी सुब्रह्मण्यम	
43.	राजकुमारी संगल		72.	एम. जी. शशिधरन	
			73.	एच. के. शर्मा	
			74.	संजीव ममगई	
			75.	शशि पिल्लई	

1	2	3
76.	सुरेश कुमार शर्मा-II	
77.	सुनिता शर्मा-I	
78.	नीना धमीजा	
79.	के. एस. रामाकृष्णन	
80.	वी. के. रामनानी	
81.	पुष्पा मिन्ज	
82.	एन. सी. बहुगुणा	
83.	डी. एन. मिश्रा	
84.	के. एल. मीना	
85.	विक्रम राजन	
86.	दुर्जन साल सिंह	
87.	एस. एस. पी. माथुर	
88.	जगबीर सिंह राणा	

2. उपर्युक्त सहायकों की अनुभाग अधिकारी के रूप में तदर्थ आधार पर पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :--

- तदर्थ आधार पर पदोन्नति की अवधि 30.06.2013 तक अथवा नियमित अनुभाग अधिकारियों के उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, होगी।
- तदर्थ पदोन्नति पर नियुक्त किए गए अधिकारियों को इस ग्रेड में अनिश्चितकाल तक बने रहने या नियमित नियुक्ति के लिए अनुभाग अधिकारियों की चयन सूची में शामिल करने अथवा सी.एस.एस. के अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई हक नहीं होगा।
- तदर्थ व्यवस्था तब तक जारी रहेगी जब तक कि अनुभाग अधिकारी ग्रेड में नियमित उम्मीदवार या तो वरिष्ठता कोट अथवा सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा (एलडीसीई) द्वारा उपलब्ध नहीं होते हैं। यदि तदर्थ आधार पर नियुक्त व्यक्ति इन दोनों वर्गों में से किसी एक के लिए नियमित नियुक्ति के लिए अर्हता नहीं प्राप्त करते हैं, तो ऐसे नियमित अनुभाग अधिकारी को का. एवं प्रशि. विभाग द्वारा उन्हें आर्बिट्रल संबंधित संवर्ग एकक में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से उपलब्ध होने पर उन्हें सहायक ग्रेड में प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

नीरज सचदेवा
अवर सचिव (प्रशा.)

प्रवर्तन निदेशालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 13 फरवरी 2013

सं. ए-4/15/2010--प्रवर्तन निदेशक, एतद्वारा, इस निदेशालय के निम्नलिखित प्रवर्तन अधिकारियों/अधीक्षकों को वेतन बैंड-2,

रु. 9,300--34,800/- में ग्रेड वेतन रु. 5,400/- के वेतनमान में उनके नामों के आगे दर्शाई गई तारीख से या अगले आदेश तक सहायक निदेशक के रूप में प्रोन्नत करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	तैनाती की तारीख	टिप्पणियां
1.	सी. एम. सी. रेड्डी	25.09.2012	
2.	एन. के. ढाका	25.09.2012	
3.	ए. के. कौशल	25.09.2012	
4.	ए. एस. बुधवार	26.09.2012	
5.	सत्येन्द्र सिंह	25.09.2012	
6.	आर. के. तिवारी	27.09.2012	
7.	जोसेफ जॉर्ज	26.09.2012	
8.	जे. सुब्रह्मण्यम	01.10.2012	
9.	जी. सी. परिहार	27.09.2012	
10.	सी. पी. ददलानी	25.09.2012	
11.	अनूप सिंह रौथान	25.09.2012	
12.	जी. के. दत्ता	26.09.2012	
13.	श्रीमती शिखा सरकार	26.09.2012	
14.	श्रीमती स्नेह लता ग्रोवर	29.09.2012	
15.	एम. अंजानेयुलू	26.09.2012	30.11.2012 को सेवा-निवृत्त
16.	डी. कार	26.10.2012	
17.	दिनेश सिंह चौहान	26.09.2012	
18.	अबुल हसन	26.09.2012	

एम. जी. अत्री
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

सं. ए-4/15/2010--प्रवर्तन निदेशक, एतद्वारा, इस निदेशालय के निम्नलिखित सहायकों को रु. 9,300--34,800/- + ग्रेड पे रु. 4,600/- के वेतनमान में उनके नामों के आगे दर्शाई गई तारीखों से अथवा अगले आदेशों तक अधीक्षक के पद पर प्रोन्नत करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख	टिप्पणियां
1.	ए. के. चक्रवर्ती	01.10.2012	31.01.2013 को सेवा-निवृत्त
2.	एस. के. चौधरी	01.10.2012	
3.	एस. बी. राय	03.10.2012	

एम. जी. अत्री
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली-110003, दिनांक 13 फरवरी 2013

सं. डीपी/पर्स.1/2013/0020/3/14/2008--अधिवर्षिता की आयु पूरी हो जाने पर दिनांक 31.10.2012 के अपराह्न से श्री राम किशन ने कार्यालय प्रशासनिक अधिकारी (लेखा), केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली के पद का प्रभार त्याग दिया है।

अश्वनी कुमार
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (मु.)

सं. डीपी/पर्स.1/2013/0021/3/69/2006--अधिवर्षिता की आयु पूरी हो जाने पर दिनांक 31.01.2013 के अपराह्न से श्रीमती एम. सचदेव ने कार्यालय प्रशासनिक अधिकारी (कार्मिक), केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली के पद का प्रभार त्याग दिया है।

अश्वनी कुमार
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (मु.)

केन्द्रीय सतर्कता आयोग

नई दिल्ली-23, दिनांक 11 फरवरी 2013

सं. 2/38/10-प्रशासन/203026--सक्षम प्राधिकारी एतद्वारा आयोग में निम्नलिखित अवर सचिवों को 'विशेष कार्य अधिकारी' के पद पर वेतन बैंड रु. 15,600--39,100/- में ग्रेड वेतन 7,600/- के साथ तदर्थ आधार पर दिनांक 10.01.2013 से बारह माह की अवधि अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं :--

(i) श्री फिलिप बारा

(ii) श्री आर.एन. नायक

2. 'विशेष कार्य अधिकारी' के पद पर इनकी नियुक्ति समय-समय पर संशोधित केन्द्रीय सतर्कता आयोग (स्टाफ) भर्ती नियमावली, 2007 के नियम 4(1)(ख) के अन्तर्गत पूर्णतया तदर्थ आधार पर है तथा इससे नियमित नियुक्ति के लिए उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है।

आर.एस. सिन्हा
उप सचिव (प्रशासन)

दिनांक 12 फरवरी 2013

सं. 2/23/12-प्रशासन/203027--केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त एतद्वारा श्री एस.पी.एन. सिंह, आई.डी.ए.एस. (86) को आयोग में अपर सचिव (संयुक्त सचिव स्तर) के पद पर वेतन बैंड रु. 37,400--67,000/- में ग्रेड वेतन रु. 10,000/- के साथ दिनांक 07.02.2013 (पूर्वाह्न) से पांच वर्षों की अवधि अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं।

आर.एस. सिन्हा
उप सचिव (प्रशासन)
कृते केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त

गृह मंत्रालय

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो

नई दिल्ली-110003, दिनांक 18 फरवरी 2013

सं. 3/3/2013-प्रशा.--भारत के राष्ट्रपति, श्री संजय शर्मा, कमांडेंट, 151वीं बटालियन, सीमा सुरक्षा बल, आईआरएलए नं. 19350196, को दिनांक 1 फरवरी, 2013 (पूर्वाह्न) से वेतनमान पे बैंड-4 (रु. 37,400--67,000/-) के साथ ग्रेड पे रु. 8,700/- में तीन वर्ष की अवधि के लिए पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार में प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी (शस्त्र) के पद पर प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त करते हैं।

धनीराम
सहायक निदेशक (प्रशा.)

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 11 फरवरी 2013

सं. ओ.दो. 5342/2013-डी.ए.-4-कार्मिक--श्री राजबीर सिंह, उप कमाण्डेंट (ईरला-5342) 82 बटालियन, केरिपुबल, का सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति नोटिस को सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लेने के परिणामस्वरूप उपरोक्त अधिकारी ने अपने पद से कार्यभार दिनांक 01.02.2013 (पूर्वाह्न) में त्याग दिया है। अतः इनका नाम इस बल की नफरी से दिनांक 01.02.2013 (पूर्वाह्न) से निकाला जाता है।

बी. एस. चौहान
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 4 फरवरी 2013

सं. 1/74/2012-प्रशा.III/11--राष्ट्रपति निम्नलिखित तदर्थ अवर सचिवों/नियमित अनुभाग अधिकारियों को डी.ओ.पी. एंड टी. के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/11/2011-सी.एस-I दिनांक 26.11.2012 द्वारा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव ग्रेड) में नियुक्ति के लिए उनको वर्ष 2009 की चयन सूची में शामिल करने के परिणामस्वरूप 01.07.2009 से नियमित आधार पर अवर सचिव (केन्द्रीय सचिवालय सेवा ग्रेड-I) के पद पर नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	सी. एस. एल. संख्या	नाम
1.	6294	श्री पूर्णेन्दु कान्त
2.	6654	श्री मनोज देहुरी

2. जिस रिक्त पद के स्थान पर अधिकारियों को वर्ष 2009 की चयन सूची में शामिल किया गया है, वह 01.07.2009 से 30.06.2010 की अवधि से संबंधित है।

3. उक्त चयन सूची में शामिल अधिकारियों की वरिष्ठता उसी क्रम में होगी जिसमें उनके नाम रखे गए हैं, चाहे ग्रेड-I में उनकी नियुक्ति की वास्तविक तारीख कोई हो। उक्त चयन सूची में शामिल अधिकारियों की नियमित आधार पर अवर सचिव के ग्रेड में नियुक्ति "पी. एस. भण्डारी और अन्य बनाम यू.ओ.आई. और अन्य" द्वारा ओ.ए. सं. 611/2012 में कैट के प्रधान पीठ, नई दिल्ली के अन्तरिम आदेश दिनांक 24.02.2012 के अनुसार इसके अन्तिम निष्कर्ष पर आधारित होगा और यह किसी अन्य माननीय न्यायालय द्वारा किसी संबंधित मामले में उसके आदेश पर आधारित होगा।

राम गोपाल
अवर सचिव

नई दिल्ली-110011, दिनांक 13 फरवरी 2013

सं. 1/74/2012-प्रशा. III/17--राष्ट्रपति, निम्नलिखित तदर्थ अवर सचिवों/नियमित अनुभाग अधिकारियों को डी.ओ.पी. एंड टी के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/11/2011-सी.एस-I दिनांक 26.11.2012 द्वारा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव ग्रेड) में नियुक्ति के लिए उनको वर्ष 2010 की चयन सूची में शामिल करने के परिणामस्वरूप 01.07.2010 से नियमित आधार पर अवर सचिव (केन्द्रीय सचिवालय सेवा ग्रेड-I) के पद पर नियुक्त करते हैं :-

क्र. सं.	सी. एस. एल. संख्या	नाम
1.	6639	श्री एस. के. बब्बर
2.	6793	श्री राम गोपाल

2. जिस रिक्त पद के स्थान पर अधिकारियों को वर्ष 2010 की चयन सूची में शामिल किया गया है, वह 01.07.2010 से 30.06.2011 की अवधि से संबंधित है।

3. उक्त चयन सूची में शामिल अधिकारियों की वरिष्ठता उसी क्रम में होगी जिसमें उनके नाम रखे गए हैं, चाहे ग्रेड-I में उनकी नियुक्ति की वास्तविक तारीख कोई हो। उक्त चयन सूची में शामिल अधिकारियों की नियमित आधार पर अवर सचिव के ग्रेड में नियुक्ति "पी. एस. भण्डारी और अन्य बनाम यू.ओ.आई. और अन्य" द्वारा ओ.ए. सं. 611/2012 में कैट के प्रधान पीठ, नई दिल्ली के अन्तरिम आदेश दिनांक 24.02.2012 के अनुसार इसके अन्तिम निष्कर्ष पर और यह किसी अन्य माननीय न्यायालय द्वारा किसी संबंधित मामले में उसके आदेश पर आधारित होगा।

पंकज कुमार देवरानी
अवर सचिव

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग

कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा

आर्थिक एवं सेवा मंत्रालय

नई दिल्ली-110002, दिनांक 11 फरवरी 2013

सं. ए.एम.जी.-I/प्रशासन-I/2(1)राजपत्र/2013/1141--प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, आर्थिक एवं सेवा मंत्रालय, नई दिल्ली, निम्नलिखित

अधिकारियों को उनके नाम के आगे दर्शाई गई तिथि से पे बैंड-2 में रु. 9,300--34,800/- तथा रु. 4,600/- के ग्रेड पे में अंतिम आधार पर निजी सचिव (वर्ग 'ख' राजपत्रित) के रूप में पदोन्नति होने के आदेश देते हैं :-

सुश्री सुनिता कश्यप 01.01.2013

अमर सिंह दहीनवाल
उपनिदेशक (प्रशासन)

सं. ए.एम.जी.-I/प्रशासन-I/2(1)राजपत्र/2013/1142--प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, आर्थिक एवं सेवा मंत्रालय, नई दिल्ली, निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के आगे दर्शाई गई तिथि से पे बैंड-2 में रु. 9,300--34,800/- तथा रु. 4,800/- के ग्रेड पे में अंतिम आधार पर सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (वर्ग 'ख' राजपत्रित) के रूप में पदोन्नति/आमेलन होने के आदेश देते हैं :-

क्र. सं.	नाम	तिथि	पदोन्नति/आमेलन
1.	श्री राजेन्द्र कुमार	09.09.2011	आमेलन
2.	श्री जयपाल सिंह	31.12.2012	पदोन्नति

अमर सिंह दहीनवाल
उपनिदेशक (प्रशासन)

सं. ए.एम.जी.-I/प्रशासन-I/2(1)राजपत्र/2013/1143--प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, आर्थिक एवं सेवा मंत्रालय, नई दिल्ली, निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के आगे दर्शाई गई तिथि से पे बैंड-2 में रु. 9,300--34,800/- तथा रु. 5,400/- के ग्रेड पे में अंतिम आधार पर लेखापरीक्षा अधिकारी (वर्ग 'ख' राजपत्रित) के रूप में पदोन्नति होने के आदेश देते हैं :-

क्र. सं.	नाम	तिथि
(सर्वश्री/सुश्री)		
1.	दिपांकर पाल	21.08.2012
2.	नीरज कुमार	01.10.2012
3.	राजेन्द्र प्रसाद	01.11.2012
4.	एहमद फिरोज	01.01.2013
5.	रमेश कुमार	01.01.2013

अमर सिंह दहीनवाल
उपनिदेशक (प्रशासन)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली-110124, दिनांक 12 फरवरी 2013

सं. 9-जी.ई. 1/13-2006--भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा सेवा के निम्नलिखित अधिकारी उनके नाम के सामने दर्शायी गई तिथि से सेवानिवृत्त/स्वैच्छिक सेवानिवृत्त हो चुके हैं :--

सर्वश्री

- | | |
|--------------------|--|
| 1. एस. मुरुगिया | अधिवार्षिकी दिनांक 31.01.2013
(अपराह) |
| 2. सुनिल चन्देर | स्वैच्छिक सेवानिवृत्त दिनांक 27.08.2012
(पूर्वाह) |
| 3. एम. आर. मालाकार | अधिवार्षिकी दिनांक 31.01.2013
(अपराह) |
| 4. आर. के. मेहता | अधिवार्षिकी दिनांक 31.01.2013
(अपराह) |
| 5. के. बालु | अधिवार्षिकी दिनांक 31.01.2013
(अपराह) |
| 6. एस. के. सिन्हा | अधिवार्षिकी दिनांक 31.01.2013
(अपराह) |

हस्ता./- अपठनीय

सहा. नियंत्रक

महालेखा परीक्षक (कार्मिक)

प्रधान महालेखाकार (ले व ह) का कार्यालय, केरल

तिरुवनंतपुरम, दिनांक 14 फरवरी 2013

सं. का.स्था./ह व रो/ई-IV पै/000359--भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के निम्नलिखित अधिकारी सेवानिवृत्त हुए हैं :--

नाम	पदनाम	सेवानिवृत्ति की तारीख
श्री परंगोडन के. सी.	कल्याण अधिकारी प्रधान कार्यालय, तिरुवनंतपुरम	31.1.2013 अपराह (अधिवार्षिता)

प्रभाकर

उप महालेखाकार (प्रशासन)

प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा) का कार्यालय, आन्ध्र प्रदेश

हैदराबाद-500004, दिनांक 12 फरवरी 2013

सं. प्रशा.-I/पदो./8-132/एफ.59/2012-13/118--प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा) आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद ने

निम्नलिखित व. ले. प. अधिकारियों की सेवानिवृत्ति उनके नाम के सामने दिए गए दिनांक के प्रभाव से सहर्ष घोषणा की है :--

क्र. सं.	नाम	सेवानिवृत्ति का दिनांक
	श्री/श्रीमती	
1.	एम. वेन्कटेश्वरलू	25.07.2012
2.	यू. वेन्कटेश्वरलू	31.08.2012
3.	ए. जेम्स	30.09.2012
4.	बी. भिमय्या	31.01.2013

पी. माधवी

वरिष्ठ उपमहालेखाकार (प्रशासनिक)

सं. प्रशा./पदोन्नति/5-4/ए.60/2012-13/119--प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा) आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद ने सहर्ष इस कार्यालय के निम्नलिखित सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों (सिविल) को ग्रेड वेतन रु. 5,400/- के साथ रु. 9,300--34,800/- के वेतन बैंड-2 में लेखापरीक्षा अधिकारी के संवर्ग में पदोन्नत किया है जो कि उनके नाम के आगे दी गई दिनांक से प्रभावी होगा:--

क्र. सं.	नाम	कार्यालय आदेश सं.	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
	श्री/श्रीमती		
1.	ए. निर्मला देवी-II	122/01.08.2012	01.08.2012 AN
2.	जि. सुरेश बाबु	285/01.01.2013	01.01.2013
3.	रीतु खारे	285/01.01.2013	01.01.2013
4.	एन. वी. पूर्ण लक्ष्मी बाई	285/01.01.2013	01.01.2013
5.	के. अपराजीता	285/01.01.2013	01.01.2013
6.	आर. प्रवीण कुमार	285/01.01.2013	01.01.2013
7.	शेख अब्दुल हफीज़	285/01.01.2013	01.01.2013
8.	डी. वेन्कटेश्वर राव	285/01.01.2013	01.01.2013

उपरोक्त प्रोन्नति आदेश उनके वरिष्ठ के दावों, यदि कोई हो, के प्रति पक्षपात से रहित है तथा आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय/भारत के सर्वोच्च न्यायालय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण इत्यादि में लंबित रिट याचिकाओं, यदि कोई हो, के परिणाम के अधीन है।

क्रम सं. 01, 05 & 06 के कर्मचारी वेतन के पुनःनिर्धारण के योग्य नहीं हैं क्योंकि डी.ओ.पी.टी के का.ज्ञा. सं. 35034/3/2008-स्था. (डी) दिनांक 19.05.2010 के अनुसार एम.ए.सी.पी के तहत उन्हें पहले ही वित्तीय उन्नयन दिया जा चुका है।

क्रम सं. 02, 03, 04, 07 & 08 के कर्मचारी/कर्मचारियों को भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन सं. एफ सं. 1/1/80-आई सी दिनांक 13.09.2008

की शर्तों के तहत अपने प्रोन्नति के दिन से एक महीने के अन्दर वेतन निर्धारण के विकल्प देना चाहिये।

पी. माधवी

वरिष्ठ उपमहालेखाकार (प्रशासनिक)

सं. प्रशा. I/पदोन्नति/5-4/ए.59/2012-13/120--प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा) आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद ने सहर्ष इस कार्यालय के निम्नलिखित लेखापरीक्षा अधिकारियों (सिविल) को ग्रेड वेतन रु. 5,400/- के साथ रु. 15,600--39,100/- के वेतन बैंड-3 में वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के संवर्ग में पदोन्नत किया है जो कि उनके नाम के आगे दी गई दिनांक से प्रभावी होगा:--

क्र. सं.	नाम	कार्यालय आदेश सं.	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
श्री/श्रीमती			
1.	वि. रवि किरण	117/31.07.2012	01.08.2012
2.	वि. श्रीनिवास	275/31.12.2012	01.01.2013
3.	ऑय. श्रीनिवासा मूर्ति	275/31.12.2012	01.01.2013
4.	नरेन्द्रनाथ दारवई	275/31.12.2012	01.01.2013
5.	बि. वामन राव	275/31.12.2012	01.01.2013
6.	एस. शिव कुमार	275/31.12.2012	01.01.2013
7.	सी. नगेश	275/31.12.2012	01.01.2013
8.	ओ. शोबा राणी	275/31.12.2012	01.01.2013
9.	के. हरिदास	275/31.12.2012	01.01.2013

उपरोक्त प्रोन्नति आदेश उनके वरिष्ठ के दावों, यदि कोई हो, के प्रति पक्षपात से रहित है तथा आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय/भारत के सर्वोच्च न्यायालय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण इत्यादि में लंबित रिट याचिकाओं, यदि कोई हो, के परिणाम के अधीन है।

अधिकारियों को भारत सरकार के दिनांक 13.09.2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1/1/2008-आईसी के तहत अपने प्रोन्नति के दिन से एक महीने के अन्दर वेतन निर्धारण के विकल्प देना चाहिये।

पी. माधवी

वरिष्ठ उपमहालेखाकार (प्रशासनिक)

दिनांक 14 फरवरी 2013

सं. प्रशा. I/पदोन्नति/5-4/ए.59/2012-13/124--प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा) आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद ने सहर्ष इस कार्यालय के निम्नलिखित निजी सहायक/वरिष्ठ लेखापरीक्षक/लेखापरीक्षक/डाय एंट्री ऑपरेटर को ग्रेड वेतन रु. 4,800/-

के साथ रु. 9,300--34,800/- के वेतन बैंड-2 में सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (सिविल) के संवर्ग में पदोन्नत किया है जो कि उनके नाम के आगे दी गई दिनांक से प्रभावी होगा:--

क्र. सं.	नाम	कार्यालय आदेश सं.	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
श्री/श्रीमती			
1.	सुजाता कोविलुर	48/03.07.2012	16.07.2012
2.	जि. अनुराधा	199/10.12.2012	11.12.2012
3.	वि. श्री रमा कृष्णा	199/10.12.2012	11.12.2012
4.	सी. राजेश	199/10.12.2012	10.12.2012
5.	एन. देवेन्द्र	199/10.12.2012	10.12.2012
6.	जे. एन. नीरजा	199/10.12.2012	10.12.2012
7.	एम. राधिका	199/10.12.2012	10.12.2012
8.	जि. मधु	199/10.12.2012	10.12.2012
9.	मोहम्मद तनवीर मालिक	199/10.12.2012	11.12.2012
10.	के. वि. टी. एस. जे. राव	199/10.12.2012	12.12.2012
11.	बि. कोटिलिङ्ग प्रसाद	199/10.12.2012	10.12.2012
12.	ई. एल. नारायणा स्वमुलु	199/10.12.2012	10.12.2012
13.	कुंवर शॉ	199/10.12.2012	11.12.2012
14.	सतीश कुमार सिंघ	199/10.12.2012	10.12.2012
15.	रोषण कोटनाला	199/10.12.2012	10.12.2012
16.	पि. वि. सत्यानारयाना	199/10.12.2012	10.12.2012
17.	अभिषेक कुमार सिंघ	199/10.12.2012	11.12.2012
18.	नन्द मुरारी सहाय	199/10.12.2012	11.12.2012

क्रम सं. 01 से 06 के कर्मचारी वेतन के पुनःनिर्धारण के योग्य नहीं हैं क्योंकि डी.ओ.पी.टी के का.ज्ञा. सं. 35034/3/2008-स्था. (डी) दिनांक 19.05.2010 के अनुसार एम.ए.सी.पी के तहत उन्हें पहले ही वित्तीय उन्नयन दिया जा चुका है।

क्रम सं. 07 से 18 के कर्मचारी/कर्मचारियों को समय-समय पर संशोधित भारत सरकार के दिनांक 26.09.1981 के कार्यालय ज्ञापन सं. एफ 1/80-स्था.(पी.1) और दिनांक 08.02.1983 के कार्यालय ज्ञापन सं. एफ 13/26/82-स्था.(पी.1) के तहत अपने प्रोन्नति के दिन से एक महीने के अन्दर वेतन निर्धारण के विकल्प देना चाहिये।

उपरोक्त प्रोन्नति आदेश उनके वरिष्ठ के दावों, यदि कोई हो, के प्रति पक्षपात से रहित है। वे दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होंगे।

पी. माधवी

वरिष्ठ उपमहालेखाकार (प्रशासनिक)

महालेखाकार का कार्यालय

(आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) ओडिशा

भुवनेश्वर, दिनांक 3 जनवरी 2013

सं. प्रशा. (आ एवं राक्षेलेप)/2-8-वर्ग-: 'ख'-खंड-4/1155--मुख्यालय के कार्यालय आदेश सं. सि. ए-1/प्रशा./157 दिनांक 31 दिसम्बर 2012 के अनुसार निम्नलिखित लेखापरीक्षा अधिकारी (वाणिज्य) अपने पदोन्नति के पश्चात् वेतनमान रु. 15,600--39,100/- ग्रेड पे रु. 5,400/- पर उनके नाम के आगे दर्शाए गए तिथि से वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (वाणिज्य) के रूप में इ एस-1, ग्रुप, कार्यालय महालेखाकार (आ एवं राक्षेलेप), ओडिशा, भुवनेश्वर में पदभार ग्रहण कर लिए हैं :-

क्र. सं.	नाम व पद	वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (वाणिज्य) के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
1.	श्री तरुण चन्द्र नायक	01.01.2013 (पूर्वाह्न)
2.	श्री हरी कृष्णा परिच्छा	01.01.2013 (पूर्वाह्न)

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (वाणिज्य) के संवर्ग पर उनकी पदोन्नति ट्रिब्यूनल/न्यायालय में विचाराधीन मामलों पर उच्च/उच्चतम न्यायालय/केन्द्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण के अंतिम निर्णय की शर्त एवं उनके वरिष्ठों के दावे को प्रभावित किए बिना की गयी है।

वेतन निर्धारण के लिए जी. एस. आर-622 (ई) दिनांक 29.08.2008 के अनुसार अपने विकल्प का उपयोग कर सकते हैं।

विधान मंडल

उपमहालेखाकार (प्रशा.)

खान मंत्रालय

भारतीय खान ब्यूरो

नागपुर, दिनांक 12 फरवरी 2013

सं. ए-19011/512/2006-स्था. ए.--विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर कैप्टन एस. एस. चौधरी, प्रशासनिक अधिकारी को भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर में दिनांक 01 जून 2012 (पूर्वाह्न) से वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति की जाती है।

संजय कुमार सिंह
सहायक प्रशासनिक अधिकारी
कृते महानियंत्रक

सं. ए-19011/329/1999-स्था. ए.--विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर श्री मोहन राम, अधिक्षण अधिकारी (अयस्क प्रसाधन) को भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर में दिनांक 29 जनवरी 2013 (पूर्वाह्न) से मुख्य अयस्क प्रसाधन अधिकारी के पद पर पदोन्नति की जाती है।

संजय कुमार सिंह
सहायक प्रशासनिक अधिकारी
कृते महानियंत्रक

सं. ए-19012/339/2011-स्था. ए. पी. पी.--श्री के. सिन्हा सहायक खनन अभियंता, भारतीय खान ब्यूरो, रांची वार्धक्य आयु प्राप्त होने पर सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप दिनांक 31 दिसम्बर 2012 (अपराह्न) से कार्यभार मुक्त हो गए हैं।

संजय कुमार सिंह
सहा. प्रशासनिक अधिकारी

नागपुर, दिनांक 12 फरवरी 2013

सं. ए-19011/632/2012-स्था. ए.--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर श्री दाता राम गुर्जर, को भारतीय खान ब्यूरो, देहरादून में दिनांक 27 दिसम्बर 2012 (पूर्वाह्न) से सहायक खान नियंत्रक के पद पर नियुक्ति की जाती है।

कप्तान एस. एस. चौधरी
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
कृते महानियंत्रक

सं. ए-19011/629/2012-स्था. ए.--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर श्री आशीष मिश्रा, को भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर में दिनांक 27 दिसम्बर 2012 (पूर्वाह्न) से सहायक खान नियंत्रक के पद पर नियुक्ति की जाती है।

कप्तान एस. एस. चौधरी
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
कृते महानियंत्रक

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

कोलकाता-700016, दिनांक 11 फरवरी 2013

शुद्धि-पत्र

सं. 1129/एसपी/ए-12025/1-भूविज्ञान/अधिसूचना/07/19ए.--इस कार्यालय अधिसूचना सं. 8391/एस पी से 8424/एस पी-7354बी से 7358बी दिनांक 13 जून 2012/18 जून 2012 के आंशिक संशोधन में, क्रम संख्या 7 पर श्री सौरभ कुमार रस्तोगी (अन्य पिछड़ा वर्ग) के नाम को अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र के लिए सत्यापन रिपोर्ट की अप्राप्ति के कारण अनंतिम रूप में पढ़ा जाए। अन्य निबंधन एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

एच. एम. मिश्रा
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी
कृते महानिदेशक

कोलकाता-700016, दिनांक 14 फरवरी 2013

सं. 1175/एसपी/ए-32013/3-डी.डी.जी. (रसायन)/2006/19बी/ (खण्ड-II)--विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति पर राष्ट्रपति जी निम्नलिखित निदेशकों (रसायन) को उप महानिदेशक (रसायन) के पद पर, इसी विभाग में नियमानुसार वेतन बैंड-4 में ग्रेड वेतन रु. 10,000/-

के साथ रु. 37,400--67,000/- के वेतनमान पर नियमित आधार पर, आगामी आदेशों तक प्रत्येक के सामने उल्लिखित तिथि से प्रभावित पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं :-

क्र. सं.	नाम	उपमहानिदेशक (रसायन) के पद पर पदोन्नति की तिथि
1.	श्री वी. एम. पराते	13.04.2012 (अपराह)
2.	श्री आर. एस. बैस	13.04.2012 (अपराह)

सी. मुरलीधरन
निदेशक (कार्मिक)
कृते महानिदेशक

भारतीय सर्वेक्षण विभाग

(महासर्वेक्षक का कार्यालय)

देहरादून-248001, दिनांक 28 जनवरी 2013

सं. सी.-690/594--निम्नलिखित सीनियर रिप्रोग्राफरों को भारतीय सर्वेक्षण विभाग में उनके नाम के सम्मुख दी गयी तिथि से नियमित आधार पर सहायक प्रबन्धक (मानचित्र पुनरुत्पादन) सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप 'बी' के पद पर वेतन बैंड-2 में रुपये 9,300--34,800/- + 4,600/- ग्रेड में पदोन्नत किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम	पदोन्नति की तिथि
1.	श्री सी. वैकट्याचार्य	21.09.2012
2.	श्री कृष्णा सिंह (अनु. जाति)	24.09.2012

स्वर्ण सुब्बा राव
भारत के महासर्वेक्षक

सं. सी.-697/724-एस.ओ.एस. (ए)(1)--निम्नलिखित भण्डार सहायक (ग्रुप 'सी') को भारतीय सर्वेक्षण विभाग में सहायक भण्डार अधिकारी (सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप 'बी') के पद पर पी. बी.-2 में रुपये 9,300--34,800/- + ग्रेड पे 4,200/- में उनके नाम के सामने दर्शायी गई तिथि से नियमित आधार पर पदोन्नत किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम	पदोन्नति की तिथि
1.	श्री कृष्णबास मिश्रा	23.10.2012
2.	श्री आनन्द दास (अनु. जाति)	09.11.2012
3.	श्री महिन्द्र कुमार शर्मा	15.01.2013

स्वर्ण सुब्बा राव
भारत के महासर्वेक्षक

सं. सी.-707/718-ए--निम्नलिखित कार्यालय अधीक्षक को भारतीय सर्वेक्षण विभाग में स्थापना एवं लेखा अधिकारी (सामान्य केन्द्रीय सेवा

ग्रुप 'बी' राजपत्रित) के पद पर पी. बी.-2 में रुपये 9,300--34,800/- + ग्रेड पे रुपये 4,600/- के वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख दर्शायी गई तिथि से नियमित आधार पर पदोन्नत किया जाता है:-

श्री एम. एल. गर्ग (अनु. जाति) 07.08.2012

स्वर्ण सुब्बा राव
भारत के महासर्वेक्षक

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

बेतार अनुश्रवण संघटन

नई दिल्ली-110062, दिनांक 12 फरवरी 2013

सं. ए-32012/02/2012-प्रशा./174--संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी एतद्वारा श्री के. पी. हरिदासन, लेखाकार, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, बेतार अनुश्रवण संघटन को दिनांक 23.01.2013 से 22.01.2014 तक अथवा जब तक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर कोई उम्मीदवार नियुक्त नहीं हो जाता, इसमें से जो भी पहले हो, तब तक के लिए वेतन बैंड-2 में 9,300--34,800/- रु. + 4,600/- रु. ग्रेड वेतन में प्रशासनिक अधिकारी (श्रेणी "ख" राजपत्रित) के पद पर तदर्थ आधार पर प.क्षे.मु. मुंबई में नियुक्त करते हैं।

महासिंह
उप निदेशक

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र

मुंबई-85, दिनांक 8 फरवरी 2013

संदर्भ : पीडी/4(4)/2005-भर्ती-III (भाग फाइल)/2013/1933--नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, श्री रविन्द्र वसंत बिलगी, निजी सचिव (गैर सचिवालायीन) को फरवरी 04, 2013 (पूर्वाह) से आगामी आदेशों तक रु. 9,300--34,800/- के वेतन बैंड-2 तथा ग्रेड वेतन रु. 4,800/- में इसी अनुसंधान केन्द्र में वरिष्ठ निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

शैलजा प्रकासम
उप स्थापना अधिकारी

संदर्भ : पीडी/4(4)/2005-भर्ती-III (भाग फाइल)/2013/1934--नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, श्रीमती जयश्री सदाशिवन नायर, निजी सचिव (गैर सचिवालायीन) को फरवरी 04, 2013 (पूर्वाह) से आगामी आदेशों तक रु. 9,300--34,800/- के वेतन बैंड-2 तथा ग्रेड वेतन रु. 4,800/- में इसी अनुसंधान केन्द्र में वरिष्ठ निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

शैलजा प्रकासम
उप स्थापना अधिकारी

परमाणु ऊर्जा विभाग
राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र
इन्दौर, दिनांक 15 फरवरी 2013

सं. आरआरकेट/प्रशा/2012/भ-805/199--राष्ट्रपति, निम्नांकित कर्मचारियों को राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र, इंदौर में उनके नाम के सामने लिखि तिथि से पदोन्नति ग्रेड तथा वेतन बैंड में नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं. सं.	नाम	वर्तमान ग्रेड (वेतन बैंड + ग्रेड वेतन)	पदोन्नति ग्रेड (वेतन बैंड + ग्रेड वेतन)	दिनांक से (पूर्वाह)	प्रभाग/अनुभाग
1. 521	सर्वश्री चन्द्रशेखर पुरुषोत्तम नवाथे	वैज्ञानिक अधिकारी/एच (पीबी : 4, रु. 37,400--67,000/- + ग्रेड वेतन रु. 10,000/-)	उत्कृष्ट वैज्ञानिक (एचएजी स्केल रु. 67,000/- (वार्षिक वेतनवृद्धि @ 3%--79,000/-)	20.12.2012	एसीबीडीडी तथा एलईएसडी
2. 113	पुंडलीक रामा हन्नूरकर	उपरोक्त	उपरोक्त	उपरोक्त	आरएफएसडी तथा आईओपीडीडी

के. रमेश
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

इन्दौर, दिनांक 18 फरवरी 2013

सं. आरआरकेट/प्रशा/2012/भ-805/206--राष्ट्रपति, निम्नांकित कर्मचारियों को राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र, इंदौर में उनके नाम के सामने लिखि तिथि से पदोन्नति ग्रेड तथा वेतन बैंड में नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं. सं.	नाम	वर्तमान ग्रेड (वेतन बैंड + ग्रेड वेतन)	पदोन्नति ग्रेड (वेतन बैंड + ग्रेड वेतन)	दिनांक से (पूर्वाह)	प्रभाग/अनुभाग	
1	2	3	4	5	6	7
1. 766	सर्वश्री डॉ. विनोद कुमार सेनेचा	वैज्ञानिक अधिकारी/जी (पीबी : 4, रु. 37,400-- 67,000/- + ग्रेड वेतन रु. 8,900/-)	वैज्ञानिक अधिकारी/एच (पीबी : 4, रु. 37,400--67,000/- + ग्रेड वेतन रु. 10,000/-)	20.12.2012	पीएलएससीडी	
2. 656	श्री हरीलाल सवदासभाई बोरा	उपरोक्त	उपरोक्त	26.12.2012	एलईएसडी	
3. 642	श्री आनंदवर्धन शिवराम जोशी	उपरोक्त	उपरोक्त	20.12.2012	एलपीडी	
4. 173	डॉ. सुधीर कुमार दीक्षित	उपरोक्त	उपरोक्त	उपरोक्त	एलएसईएस	
5. 263	श्री राजेश आर्य	उपरोक्त	उपरोक्त	उपरोक्त	एसएसएलडी	
6. 272	श्री शिव दत्त शर्मा	उपरोक्त	उपरोक्त	उपरोक्त	एसीडीएफएस	
7. 548	श्री अविनाश पुणतांबेकर	उपरोक्त	उपरोक्त	उपरोक्त	पीएलएससीडी	
8. 577	श्रीमती अल्पना राजन	उपरोक्त	उपरोक्त	उपरोक्त	सीडी	

बी. के. जेना
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

जल संसाधन मंत्रालय
(केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड)

फरीदाबाद-121001, दिनांक 6 फरवरी 2013

सं. 3-1741/2012-वैज्ञा. स्था./964--संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश के आधार पर व सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के अनुसार श्री अटलानन्द नारायण चौधरी, को वेतन बैंड-2 रुपये 9,300-- 34,800/- + ग्रेड वेतन 4,800/- रुपये प्रतिमाह एवं सामान्य भत्तों के वेतनमान पर सहायक रसायनज्ञ के पद पर अस्थाई आधार पर दिनांक 28.12.2012 (पूर्वाह्न) से केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, मध्य पूर्वी क्षेत्र, पटना में पदस्थापित किया जाता है।

वह कार्यग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे जिसे सक्षम अधिकारी के स्वेच्छा निर्णय पर आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है।

यह सक्षम प्राधिकारी की सहमति से जारी किया जा रहा है।

एस. आर. चौहान
प्रशासनिक अधिकारी

सं. 3-1753/2012-वैज्ञा. स्था./969--संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश के आधार पर व सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के अनुसार श्री अनीश कुमार एन., को वेतन बैंड-2 रुपये 9,300-- 34,800/- + ग्रेड वेतन 4,800/- रुपये प्रतिमाह एवं सामान्य भत्तों के वेतनमान पर सहायक रसायनज्ञ के पद पर अस्थाई आधार पर दिनांक 31.12.2012 (पूर्वाह्न) से केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, उत्तर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, जम्मू में पदस्थापित किया जाता है।

वह कार्यग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे जिसे सक्षम अधिकारी के स्वेच्छा निर्णय पर आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है।

यह सक्षम प्राधिकारी की सहमति से जारी किया जा रहा है।

एस. आर. चौहान
प्रशासनिक अधिकारी

कारपोरेट कार्य मंत्रालय
कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कंपनियों के विषय में

कोच्चि-682021, दिनांक 28 जनवरी 2013

सं. 560(3)/एसएम/आरओसी-एरनाकुलम/2013--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर निम्नलिखित कंपनियों का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया

गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी :--

क्रम सं.	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	14040	मैसर्स जैफयर फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	14162	मैसर्स हिट्स वीजन प्राईवेट लिमिटेड
3.	14048	मैसर्स मिडिलक्लास रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	13993	मैसर्स कोचिन इनफोटेक सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
5.	14055	मैसर्स टोपिक टूल्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
6.	13984	मैसर्स यूरो इण्डिया टूल्स एण्ड इनवेस्टमेन्ट सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
7.	14217	मैसर्स सेन्टर फोर एडवोकेसी एण्ड रिसर्च इनवायरनमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड

के. जी. जोसफ जॉक्सन
कम्पनी पंजीयक
केरल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कंपनियों के विषय में

कोच्चि-682021, दिनांक 29 जनवरी 2013

सं. नोटिस 560(5)/एफटीई-2013--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कंपनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्रम सं.	पंजीकरण संख्या	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	003186	मैसर्स एच. एल. फाइनान्शियल कंस्टलेन्ट्स मैनेजमेन्ट सर्विसेस साऊथ इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
2.	026976	मैसर्स होपकिन्स कंस्टलेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
3.	027725	मैसर्स अल-निजाह ट्रेडल्स एण्ड हज डमरा सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
4.	025225	मैसर्स तीरतम नैचुरल फ्लैवर्स एण्ड एक्सट्रैक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
5.	003553	मैसर्स सूर्यविलासम कुरीज एण्ड लोन्स प्राईवेट लिमिटेड
6.	022424	मैसर्स राहुल नायर होस्पिटैलीटी प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
7.	024293	मैसर्स श्रीकुरुम्बा कुरीज (केरला) प्राईवेट लिमिटेड
8.	023943	मैसर्स मोविन कंसल्टिंग सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
9.	008577	मैसर्स जासगो कंस्ट्रक्शन्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
10.	025431	मैसर्स इक्रूस बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
11.	029265	मैसर्स स्यान प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
12.	017942	मैसर्स जोणचित नैचुरल न्यूट्री फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
13.	012097	मैसर्स हिलाल हैचरीज प्राईवेट लिमिटेड
14.	026332	मैसर्स हेस्टॉक रियलटर्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
15.	010380	मैसर्स आदर्श चिट्स एण्ड ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
16.	024588	मैसर्स फोयिनिक्स गुरुकुला एण्ड एजुकेशनल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
17.	022919	मैसर्स इपीवी सोलार इण्डस प्राईवेट लिमिटेड
18.	023357	मैसर्स ईस्ट वेस्ट हूमन रिसोर्स सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
19.	004051	मैसर्स जोफास कुरीज प्राईवेट लिमिटेड
20.	018432	मैसर्स ट्रान्जेन्ड चिट्स कंपनी प्राईवेट लिमिटेड
21.	018490	मैसर्स जियो कंस्ट्रक्शन मैटिरियल्स कन्सोर्टियम प्राईवेट लिमिटेड
22.	010053	मैसर्स साऊथ श्योर चिट्स एण्ड फाइनान्स प्राईवेट लिमिटेड
23.	017932	मैसर्स इन्फ्यूजन इन्फोटेक सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड

के. जी. जोसफ जॉक्सन
कम्पनी पंजीयक
केरल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कंपनियों के विषय में
चैन्नई, दिनांक 11 फरवरी 2013

सं. 7529 से 82764 तक/560(5)/एफटीई/2011--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से निम्नलिखित कंपनियों के नाम रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्रम सं.	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	7529	मैसर्स एस. के. अलाईस प्राईवेट लिमिटेड
2.	16699	मैसर्स क्वालिटी बिल्डिंग मैटिरियल्स स्पलाईज प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
3.	19737	मैसर्स श्री शक्ति विलास वैद्यशाला प्राईवेट लिमिटेड
4.	30866	मैसर्स भण्डारी अपैरल्स प्राईवेट लिमिटेड
5.	38830	मैसर्स डीम्का पैट्रो प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
6.	38980	मैसर्स प्रगटी इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजीस प्राईवेट लिमिटेड
7.	39126	मैसर्स किड्स मार्ट (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
8.	41284	मैसर्स हिमो सी फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
9.	43483	मैसर्स अन्सल सिस्टम्स एण्ड सॉफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड
10.	46144	मैसर्स अक्वॉइड पेस्ट सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
11.	49195	मैसर्स रन्हील (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
12.	52820	मैसर्स जीवन इन्फोमीडिया प्राईवेट लिमिटेड
13.	52862	मैसर्स एसएमएस पब्लिशिंग सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
14.	53219	मैसर्स चेन्न अनिमेशन एण्ड डिजिटल मीडिया प्राईवेट लिमिटेड
15.	54182	मैसर्स मैमोरियल कैंसर होस्पिटल एण्ड रिसर्च प्राईवेट लिमिटेड
16.	54275	मैसर्स जिडियान फार्मास्युटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
17.	55284	मैसर्स एस एण्ड एस रब्सर्स एस्टेट प्राईवेट लिमिटेड
18.	55288	मैसर्स सन्बीम फार्मूलेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
19.	55364	मैसर्स केएम स्टेरिली सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
20.	55761	मैसर्स मुरुगन अरूल एन्टरप्राईसेस प्राईवेट लिमिटेड
21.	56008	मैसर्स अयंगरन रियल एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
22.	56145	मैसर्स एसबीईएल इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
23.	56218	मैसर्स श्री सास्दा फाईनान्शियल सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
24.	56305	मैसर्स युदयम् प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
25.	56354	मैसर्स मेहर स्टील रि-रोलिंग मिल प्राईवेट लिमिटेड
26.	56562	मैसर्स एमआरएस टेक्नो सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड
27.	56631	मैसर्स सेपरस्पेस सोल्यूशन्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
28.	56800	मैसर्स लोबामुद्ध एक्जिम प्राईवेट लिमिटेड
29.	57035	मैसर्स ईक्वानेक्स इन्ट्रकटीव सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
30.	57078	मैसर्स स्टामेन हैल्थ केयर (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
31.	57213	मैसर्स मनार ट्रेवल्स (चैन्नई) प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
32.	57562	मैसर्स इण्डो हेयर प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
33.	57610	मैसर्स आईएमके ट्रेवल्स एण्ड टूरस प्राईवेट लिमिटेड
34.	64605	मैसर्स दक्षिण इंजीनियरिंग एण्ड कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
35.	66311	मैसर्स टीएनवीके केबल एण्ड मीडियाविजन प्राईवेट लिमिटेड
36.	67959	मैसर्स फिफथ एवेन्यु होलिडिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
37.	68245	मैसर्स अवर इण्डिया एडवाईजरी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
38.	68318	मैसर्स एक्सीहोम मेडि टूरस इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
39.	69407	मैसर्स बास्कॉन इन्वोवेटिव इन्फ्रा प्राईवेट लिमिटेड
40.	69505	मैसर्स रेन्डस्वॉस इण्डिया होस्पिटलिटी प्राईवेट लिमिटेड
41.	70024	मैसर्स फिफथ एवेन्यु अपैरल्स प्राईवेट लिमिटेड
42.	71634	मैसर्स हॉट शू इन्टरटेनमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
43.	71738	मैसर्स हिरेश मैन्स एण्ड ओरिस प्राईवेट लिमिटेड
44.	72029	मैसर्स सोवरियन एजुकेशन कॉम्पस प्राईवेट लिमिटेड
45.	72532	मैसर्स टेकसोल सैफ्टी इक्यूप्मेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
46.	73233	मैसर्स ईगल रिड्ज सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
47.	73783	मैसर्स यूनाइटेड अल्फा दोना फूड्स ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
48.	74540	मैसर्स स्ट्राम फैशन कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
49.	77077	मैसर्स जीआरएन लेबर एण्ड सैफ्टी ट्रेनिंग प्राईवेट लिमिटेड
50.	77242	मैसर्स ब्रांडेड डेमुर्जिक इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
51.	77683	मैसर्स मेडनाब हैल्थकेयर इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
52.	78166	मैसर्स सुबस्वाम मोबिलाब्स प्राईवेट लिमिटेड
53.	79084	मैसर्स मॉल्स एक्सपोर्ट्स एण्ड इम्पोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
54.	82239	मैसर्स गोल्डन प्लेट्स स्पेशिलिटी फूड प्राईवेट लिमिटेड
55.	82764	मैसर्स अमोनिक्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड

के. लता परिमलवदना
उप कम्पनी पंजीयक
तमिलनाडु

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi, the 6th February 2013

No. A-32014/1/2013-Admn.III—The President is pleased to extend the period of ad-hoc promotion in respect of the following regular Assistants of the CSS cadre of Union Public Service Commission as Section Officers with effect from 01.01.2013 to 30.06.2013 or until further orders whichever is earlier :—

S. No.	Name	Remarks
1	2	3
	(Shri/Smt./Ms.)	
1.	A. S. Shokeen	
2.	Amar Singh	
3.	Arun Kumar-I	
4.	Ashok Kumar Kaundal	
5.	B. B. Sharma	
6.	B. S. Chhonker	
7.	B. S. Pathania	
8.	Bhaskar Seal	
9.	Bimla Sachdeva	
10.	C. S. Ahuja	
11.	D. C. Koli	
12.	D. R. Madan	Up to 31.03.2013 as he is retiring on superannuation w.e.f. 31.03.2013
13.	D. K. Kang	
14.	Darshan Lal	
15.	Dinesh Sharma	
16.	Gautam Bose	
17.	Goverdhan Lal	
18.	Gulshan Chand	
19.	Hanuman Prasad	
20.	Hari Ram Meena	
21.	Inderjeet Singh	
22.	J. C. Gaba	
23.	J. C. Katoch	
24.	J. P. Sah	
25.	Jagjit Kaur	
26.	K. C. Gaur	

1	2	3
	(Shri/Smt./Ms.)	
27.	Kalpna Virat	
28.	Kanta Rani	
29.	Kiran Duggal	Up to 31.01.2013 as she has retired on superannuation w.e.f. 31.01.2013
30.	Kuntla	
31.	Mukesh Kumar	
32.	N. K. Sharma	
33.	N. R. Jorwal	
34.	N. K. Gupta -	
35.	Neeraj Kumar-II	
36.	Nirmal Das	
37.	Puran Singh-II	
38.	Pushpa Piplani	
39.	Pushpa Rani	
40.	R. C. Sharma	Up to 31.03.2013 as he is retiring on superannuation w.e.f. 31.03.2013
41.	Raj Pal Kain	
42.	Rajesh Gupta	
43.	Rajkumari Sangal	
44.	Ranbir Singh-I	
45.	S. Bhattacharjee	
46.	S. K. Sharma-I	
47.	S. R. Bhattacharjee	
48.	S. L. Ashodhiya	
49.	S. P. Bist	
50.	Savitri Kumari	
51.	Shailendra Kumar	
52.	Shanti Lata Toppo	
53.	Subhash Chander	
54.	Sudhir Kumar	
55.	Sujit Saha	
56.	Sunita Anand	
57.	Sushila Ekka	
58.	Tintus Soreng	
59.	Veena Madan	

1	2	3
	(Shri/Smt./Ms.)	
60.	Veena Singh	
61.	Vikrant Verma	
62.	Viren Singh	
63.	Dr. Vivek Dwivedi	
64.	Sachin Kumar	
65.	Ashok Kumar	
66.	Anil Kr. Roy	
67.	Ram Rashik Mandal	
68.	Kunver Balwant Rao	
69.	Mahesh Chandra	
70.	Saroj Kujur	
71.	Rohini Subramanayam	
72.	M. G. Sasidharan	
73.	H. K. Sharma	
74.	Sanjiv Mamgain	
75.	Sasi Pillai	
76.	Suresh Kumar Sharma-II	
77.	Sunita Sharma-I	
78.	Neena Dhamija	
79.	K. S. Ramakrishnan	
80.	V. K. Ramnani	
81.	Ms. Pushpa Minj	
82.	N. C. Bahuguna	
83.	D. N. Misra	
84.	K. L. Meena	
85.	Vikram Rajan	
86.	Durjan Sal Singh	
87.	S. S. P. Mahur	
88.	Jagbir Singh Rana	

2. The promotion of above Assistants as Section Officers on ad-hoc basis will be subject to the following conditions :—

- (i) The period of ad-hoc promotion would be up to 30.06.2013 or till the regular Section Officers are made available, whichever is earlier.
- (ii) The ad-hoc appointment shall not confer on the appointees any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List of Section Officers for regular appointment or to claim seniority in the Section Officers grade of CSS.

- (iii) Ad-hoc appointment would continue till regular candidates in Section Officers' Grade are available either through Seniority Quota or Limited Departmental Competitive Examination (LDCE). In the event of the ad-hoc appointees not qualifying for regular appointment in either of these two categories, they will be reverted to the Assistants' Grade on availability of such regular officers from the date the regular Section Officers join duty in their respective cadre units allotted to them by DoP&T.

NEERAJ SACHDEVA
Under Secy. (Admn.)

DIRECTORATE OF ENFORCEMENT

New Delhi-110003, the 13th February 2013

No. A-4/15/2010—Director of Enforcement, hereby appoints the following Enforcement Officers/Superintendents of this Directorate to officiate as Assistant Director on promotion in the Pay Band-2, Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay Rs. 5,400/- w.e.f. the date indicated against their names or until further orders :—

Sl. No.	Name of the Officer	Date of joining	Remarks
1.	C. M. C. Reddy	25.09.2012	
2.	N. K. Dhaka	25.09.2012	
3.	A. K. Kaushal	25.09.2012	
4.	A. S. Budhwar	26.09.2012	
5.	Satyendra Singh	25.09.2012	
6.	R. K. Tiwari	27.09.2012	
7.	Joseph George	26.09.2012	
8.	J. Subramanyam	01.10.2012	
9.	G. C. Parihar	27.09.2012	
10.	C. P. Dadlani	25.09.2012	
11.	Anup Singh Rauthan	25.09.2012	
12.	G. K. Datta	26.09.2012	
13.	Smt. Shikha Sarkar	26.09.2012	
14.	Smt. Sneha Lata Grover	29.09.2012	
15.	M. Anjaneyulu	26.09.2012	Superannuated on 30.11.2012
16.	D. Kar	26.10.2012	
17.	Dinesh Singh Chauhan	26.09.2012	
18.	Abul Hasan	26.09.2012	

M. G. ATTRI
Jt. Director (Admn.)

No. A-4/15/2010—Director of Enforcement, hereby appoints the following Assistants of this Directorate to officiate as Superintendent on promotion in the Pay Band-2, Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay Rs. 4,600/- w.e.f. the date indicated against their names or until further orders :—

Sl. No.	Name of the Officer	Date of joining	Remarks
1.	A. K. Chakraborty	01.10.2012	Superannuated on 31.01.2013
2.	S. K. Choudhury	01.10.2012	
3.	S. B. Roy	03.10.2012	

M. G. ATTRI
Jt. Director (Admn.)

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi-110003, the 13th February 2013

No. DP/PERS.I/2013/0020/3/14/2008—Shri Ram Kishan has relinquished charge of the office of Administrative Officer (Accounts), Central Bureau of Investigation, New Delhi with effect from the afternoon of 31.10.2012, on attaining the age of superannuation.

ASHWANI KUMAR
Sr. Supdt. of Police (HQ)

No. DP/PERS.I/2013/0021/3/69/2006—Ms. M. Sachdev, has relinquished charge of the office of Administrative Officer (Pers.), Central Bureau of Investigation, New Delhi with effect from the afternoon of 31.01.2013, on attaining the age of superannuation.

ASHWANI KUMAR
Sr. Supdt. of Police (HQ)

CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

New Delhi-110023, the 11th February 2013

No. 2/38/10-Admn.-203026—The Competent Authority hereby appoints the following Under Secretaries in the Commission as 'Officer on Special Duty' on ad-hoc basis in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- (Grade Pay of Rs. 7,600/-) with effect from 10th January, 2013 for a period not exceeding twelve months or till further orders, whichever is earlier :—

(i) Shri Philip Bara

(ii) Shri R. N. Nayak

2. Their appointment to the post of 'Officer on Special Duty' is purely on ad-hoc basis under proviso to Rule 4 (1)

(b) of the CVC (Staff) Rules, 2007 and will not bestow upon them any claim for regular appointment.

R. S. SINHA
Dy. Secy. (Admn.)

The 12th February 2013

No. 2/23/12-Admn.-203027—The Central Vigilance Commissioner hereby appoints Shri S. P. N. Singh, IDAS (86) as Additional Secretary (JS level) in the Commission in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- with Grade Pay of Rs. 10,000/- with effect from the forenoon of 7th February, 2013 for a period of five years or till further order whichever is earlier.

R. S. SINHA
Dy. Secy. (Admn.)
for Central Vigilance Commissioner

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(BUREAU OF POLICE RESEARCH & DEVELOPMENT)

New Delhi-110003, the 18th February 2013

No. 3/3/2013-Admn.—The President is pleased to appoint Sh. Sanjay Sharma, Commandant of 151 Bn of BSF, IRLA No. 19350196 as Principal Scientific Officer (Weapons), in Bureau of Police Research and Development, Ministry of Home Affairs, Government of India in PB-4, Rs. 37,400—67,000/- with Grade Pay Rs. 8,700/- with effect from the forenoon of 1st February, 2013 on deputation for a period of three years.

DHANI RAM
Asstt. Director (Admn.)

DIRECTORATE GENERAL, CRPF

New Delhi-110003, the 11th February 2013

No. O.II-5342/2013-DA-4-Pers—Consequent on acceptance of his notice of Voluntary Retirement from Government Service by the Competent Authority, Shri Rajbir Singh, Dy. Commandant (IRLA-5342) of 82 Bn has relinquished his post on 01-02-2013(FN) Accordingly, his name stands deleted from the strength of the force with effect from 01.02.2013 (FN).

B. S. CHAUHAN
DIG (Pers)

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA

New Delhi-110011, the 23rd January 2013

No. 1/74/2012-Ad-III/91—The President is pleased to appoint the following ad-hoc Under Secretaries/Regular Section Officers to the post of Under Secretary (Grade-I of CSS) on regular basis w.e.f. 01.07.2009 consequent upon their inclusion in the Select List for the year 2009 for

appointment to the Grade-I (Under Secretary Grade) of Central Secretariat Service vide DoP&T's O.M. No. 5/11/2011-CS-I dated 26.11.2012:—

Sl.No.	CSL No.	Name of the Officer
1.	6294	Sh. Purnendu Kant
2.	6654	Sh. Manoj Dehury

2. The vacancy against which officers have been included in the Select List for the year 2009 related to the period 01.07.2009 to 30.06.2010.

3. The seniority of the officers included in the aforesaid Select List, will be in the same order in which their names have been arranged, irrespective of actual date of their appointment to the Grade-I. The appointment of officers included in the aforesaid Select List to the grade of Under Secretary on regular basis, shall be subject to the final outcome in O.A. No. 611/2012 titled "P.S. Bhandari and others Vs UoI and others," in terms of CAT, Principal Bench, New Delhi's interim order dated 24.02.2012 and any other order by any Competent Court in any of the connected matters.

RAM GOPAL
Under Secy.

New Delhi-110011, the 13th February 2013

No. 1/74/2012-Ad-III/90—The president is pleased to appoint the following ad hoc Under Secretaries/Regular Section Officers to the post of Under Secretary (Grade-I of CSS) on regular basis w.e.f. 01.07.2010 consequent upon their inclusion in the Select List for the year 2010 for appointment to the Grade-I (Under Secretary Grade) of Central Secretariat Service vide DoP&T's O.M. No. 5/11/2011-CS-I dated 26.11.2012:—

Sl.No.	CSL No.	Name of the Officer
1.	6639	Sh. S.K. Babbar
2.	6793	Sh. Ram Gopal

2. The vacancy against which officers have been included in the Select List for the year 2010 related to the period 01.07.2010 to 30.06.2011.

3. The seniority of the officers included in the aforesaid Select List, will be in the same order in which their names have been arranged, irrespective of actual date of their appointment to the Grade-I. The appointment of officers included in the aforesaid Select List to the grade of Under Secretary on regular basis, shall be subject to the final outcome in O.A. No. 611/2012 titled "P.S. Bhandari and others Vs UoI and others," in terms of CAT, Principal Bench, New Delhi's interim order dated 24.02.2012 and any other order by any Competent Court in any of the connected matters.

PANKAJ KUMAR DEVRANI
Under Secy.

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT ECONOMIC AND SERVICE MINISTRIES

New Delhi-110002, the 11th February 2013

No. AMG-I/Admn.I/2(1)/GZT/2013/1251—The Principal Director of Audit, Economic and Service Ministries, New Delhi has ordered promotion of the following official as Private Secretary (Group 'B' Gazetted) in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/-, with Grade Pay Rs. 4,600/- from the date shown against her:—

Name	Date of Promotion
Sunita Kashyap	01.01.2013

AMAR SINGH DAHINWAL
Dy. Director (Admn.)

No. AMG-I/Admn.I/2(1)/GZT/2013/1252—The Principal Director of Audit, Economic and Service Ministries, New Delhi has ordered promotion/absorption of the following officials as Assistant Audit Officer (Group 'B' Gazetted) in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/-, with Grade Pay Rs. 4,800/- from the dates shown against them:—

Sl. No.	Name	Date of Promotion/ Absorption
1.	Sh. Rajender Kumar	09.09.2011 Absorption
2.	Sh. Jaipal Singh	31.12.2012 Promotion

AMAR SINGH DAHINWAL
Dy. Director (Admn.)

No. AMG-I/Admn.I/2(1)/GZT/2013/1253—The Principal Director of Audit, Economic and Service Ministries, New Delhi has ordered promotion of the following Assistant Audit Officers as Audit Officer (Group 'B' Gazetted) in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/-, with Grade Pay Rs. 5,400/- from the dates shown against them:—

SL.No.	Name	Date of Promotion
1.	Sh. Dipankar Pal	21.08.2012
2.	Sh. Neeraj Kumar	01.10.2012
3.	Sh. Rajender Prasad	01.11.2012
4.	Sh. Ahmed Feroze	01.01.2013
5.	Sh. Ramesh Kumar	01.01.2013

AMAR SINGH DAHINWAL
Dy. Director (Admn.)

OFFICE OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR
GENERAL OF INDIA

New Delhi-110124, the 12th February 2013

No. 639-GE-I/13-2006—The following IA&AS officers have Retired on superannuation/Retired voluntarily from Government Service from the dates shown against their names:—

S/Shri	
1. S. Murugiah	Retired on Superannuation wef. 31.01.2013 (AN)
2. Sunil Chander	Retired voluntarily wef. 27.08.2012 (FN)
3. M.R. Malakar	Retired on Superannuation wef. 31.01.2013 (AN)
4. R.K. Mehta	Retired on Superannuation wef. 31.01.2013 (AN)
5. K. Balu	Retired on Superannuation wef. 31.01.2013 (AN)
6. S.K. Sinha	Retired on Superannuation wef. 31.01.2013 (AN)

Sd/- ILLEGIBLE
Asstt. Compt. &
Auditor General (P)

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL
(A&E), KERALA

Thiruvananthapuram, the 14th February 2013

No. O.E./E&C/EIVP/000359—The following officials of IA&AD retired from service:—

Name	Designation	Date of Retirement
Sri Parangodan K.C.	Welfare Officer Main Office, Thiruvananthapuram	31.01.2013 (AN)

Sd/- ILLEGIBLE
Dy. Accountant General (Admn.)

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL
(G&SSA), ANDHRA PRADESH

Hyderabad-500004, the 12th February 2013

No. Admn.-I/Prom./8-132/F.59/2012-2013/118—Principal Accountant General (G&SSA), Andhra Pradesh, Hyderabad is pleased to declare the retirement of the following Sr. AOs with effect from the dates mentioned against their names:—

Sl. No.	Name	Date of Retirement
1.	Sh. M. Venkateswarlu	25.07.2012
2.	Sh. U. Venkateswarlu	31.08.2012
3.	A. James	30.09.2012
4.	B. Bhemyaya	31.01.2013

P. MADHAVI
Sr. Dy. Accountant General (Admn.)

No. Admn.-I/Prom./5-4/F.60/2012-2013/119—Principal Accountant General is pleased to promote the following Assistant Audit Officers (Civil) to officiate as Audit Officer (Civil) in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 5,400/- with effect from the dates mentioned against their names:—

Sl. No.	Name	Officer Order No./Date	Date of Assumption of Charge
	S/Shri/Smt./Kum.		
1.	A. Nirmala Devi-II	122/01.08.2012	01.08.2012 AN
2.	G. Suresh Babu	285/01.01.2013	01.01.2013
3.	Reetu Khare	—	—
4.	N.V. Poorna Laxmi Bai	—	—
5.	K. Aparajita	—	—
6.	R. Praveen Kumar	—	—
7.	Shaik Abdul Hafeez	—	—
8.	D. Venkateswar Rao	—	—

The above promotions are ordered without prejudice to the claims of their seniors, if any, and subject to the result of the Writ Petitions, if any, pending in the Andhra Pradesh High Court/Supreme Court of India/Central Administrative Tribunal etc.

As per DoPT OM No. 35034/3/2008-Estt. (D) dated 19.05.2010 the officers at Sl. Nos. 01, 05 & 06 are not eligible for further fixation of pay as they were already allowed financial up-gradation under MACP Scheme in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay Rs. 5,400/-.

The officers at Sl. Nos. 02, 03, 04, 07 & 08 should exercise option for fixation of pay within one month from the date of their promotion in terms of Govt. of India, O.M. No. F. No. 1/1/2008-IC dated 13.09.2008.

P. MADHAVI
Sr. Deputy Accountant General
(Admn.)

No. Admn.-I/Prom./8-132/F.61/2012-2013/120—Principal Accountant General (G&SSA) Andhra Pradesh, Hyderabad is pleased to promote the following Audit Officer (Civil) of this office to the cadre of "Senior Audit Officers (Civil)" in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay Rs. 5,400/- with effect from the dates mentioned against their names:—

Sl. No.	Name	Officer Order No./Date	Date of Assumption
1	2	3	4
	S/Shri/Smt./Kum.		
1.	V. Ravikrian	117/31.07.2012	01.08.2012
2.	V. Srinivas	275/31.12.2012	01.01.2013

1	2	3	4
	S/Shri/Smt./Kum.		
3.	I. Srinivasa Moorthy	275/31.12.2012	01.01.2013
4.	Narendranath Darwai	-do-	-do-
5.	B. Vamana Rao	-do-	-do-
6.	S. Shiva Kumar	-do-	-do-
7.	C. Nagesh	-do-	-do-
8.	O. Shobha Rani	-do-	-do-
9.	K. Haridas	-do-	-do-

The above promotions are ordered without prejudice to the claims of their seniors, if any, and subject to the result of the Writ Petitions, if any, pending in the Andhra Pradesh High Court/Supreme Court of India/Central Administrative Tribunal etc.

The officer should exercise option for fixation of pay within one month from the date of his promotion in terms of Govt. of India, O.M. No. F. No. 1/1/2008-IC dated 13.09.2008.

P. MADHAVI
Sr. Deputy Accountant General
(Admn.)

The 14th February 2013

No. Admn.-I/Prom./5-4/F.59/2012-2013/124—Principal Accountant General is pleased to promote the following Personal Assistant/Senior Auditors/Auditors/DEOs to officiate as Asstt. Audit Officers (Civil) in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/- with effect from the date mentioned against their names:—

Sl. No.	Name	Office Order No./Date	Date of Assumption of charge
1	2	3	4
	S/Shri/Smt./Kum.		
1.	Sujatha Kovilur	48/03.07.2012	16.07.2012
2.	G. Anuradha	199/10.12.2012	11.12.2012
3.	V. Sree Rama Krishna	-do-	11.12.2012
4.	C. Rajesh	-do-	10.12.2012
5.	N. Devendar	-do-	10.12.2012
6.	J.N. Neeraja	-do-	10.12.2012
7.	M. Radhika	-do-	10.12.2012

1	2	3	4
	S/Shri/Smt./Kum.		
8.	G. Madhu	199/10.12.2012	10.12.2012
9.	Mohd. Tanveer Malik	-do-	11.12.2012
10.	K.V.T.S.J. Rao	-do-	12.12.2012
11.	B. Kotilinga Prasad	-do-	10.12.2012
12.	I.L. Narayana Swamulu	-do-	10.12.2012
13.	Kunwar Shaw	-do-	11.12.2012
14.	Satish Kumar Singh	-do-	10.12.2012
15.	Roshan Kotnala	-do-	10.12.2012
16.	P.V. Satyanarayana	-do-	10.12.2012
17.	Abhishek Kumar Singh	-do-	11.12.2012
18.	Nand Murari Sahay	-do-	11.12.2012

The Officials at Sl. Nos. 01 to 06 are not eligible for further fixation of pay as they were already allowed financial upgradation, under MACP Scheme, in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,600/-. However, the difference of Grade Pay would be made allowed as per DoPT OM No. 35034/3/2008-Estt. (D) dated 19.05.2010.

The officers at Sl. Nos. 07 to 18 should exercise option for fixation of pay within one month from the date of their taking over charge in terms of Government of India O.M. No. F. /7/1/80-Estt. (P.I) dated 26.09.1981 and F. 13/26/82-Estt. (P.I) dated 08.02.1983 as amended from time to time.

The above promotions are ordered without prejudice to the claims their seniors, if any, they will be on probation for a period of two years.

P. MADHAVI
Sr. Deputy Accountant General
(Admn.)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL

(ECONOMIC & REVENUE SECTOR AUDIT) ODISHA

Bhubaneswar, the 3rd January 2013

No. Admn (E&RSA/2-8-Gr. "B" Vol-IV/1155—In terms of Hd. Qrs. Office Order No. CA-I/Admn./157 dated 31.12.2012, the following Audit Officers. (Coml.) on their promotion have assumed charge as Sr. Audit Officers (Coml.) in the Pay Band-3, in the Scale of Rs. 15,600—39,100/- with Grade

Pay of Rs. 5,400/- w.e.f. the date indicated against their names in ES-I Group O/o the Accountant General. (E&RSA), Odisha, Bhubaneswar :—

Sl. No.	Name	Date of taking over Charge as Sr. AO (Coml.)
	S/Shri	
1.	Tarun Chandra Nayak	01.01.2013 (FN)
2.	Hari Krishna Parichha	01.01.2013 (FN)

The promotion to the cadre of Sr. AO (Coml) are subject to the final decision of Hon'ble High Court/CAT/Supreme Court in the cases, if any, subjudice in Tribunal/Courts and without prejudice to the claims of their seniors.

They may exercise their option regarding fixation of pay in terms of GSR-622(E) Dtd. 29.08.2008.

Sd/- ILLEGIBLE
Dy. Accountant General (Admn.)

MINISTRY OF MINES

INDIAN BUREAU OF MINES

Nagpur, the 12 February 2013

No. A-19011/512/2006-Estt.-A—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee Capt. S. S. Chaudhary, Administrative Officer has been promoted to the post of Senior Administrative Officer in Indian Bureau of Mines, Nagpur w.e.f. 01.06.2012 (F/N).

SANJAY KUMAR SINGH
Asstt. Administrative Officer
For Controller General

No. A-19011/329/1999-Estt.-A—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee Shri Mohan Ram, Suptdg. Officer (Ore Dressing) is promoted to the post of Chief Ore Dressing Officer in Indian Bureau of Mines, Nagpur w.e.f. 29.01.2013 (F/N).

SANJAY KUMAR SINGH
Asstt. Administrative Officer
For Controller General

No. A-19012/339/2011-Estt.-APP—Shri A. K. Sinha, Assistant Mining Engineer, Indian Bureau of Mines, Ranchi has relinquished charge on the afternoon of 31.12.2012 on attaining the age of superannuation.

SANJAY KUMAR SINGH
Asstt. Administrative Officer
For Controller General

Nagpur, the 12th February 2013

No. A-19011/632/2012-Estt.-A—On the recommendation of the Union Public Service Commission the President is pleased to appoint Shri Data Ram Gurjar to the post of Assistant Controller of Mines in Indian Bureau of Mines, Dehradun w.e.f. 27.12.2012 (FN).

S. S. CHAUDHARY
Senior Administrative Officer
For Controller General

No. A-19011/629/2012-Estt.-A—On the recommendation of the Union Public Service Commission the President is pleased to appoint Shri Ashish Mishra to the post of Assistant Controller of Mines in Indian Bureau of Mines, Nagpur w.e.f. 27.12.2012 (FN).

S. S. CHAUDHARY
Senior Administrative Officer
For Controller General

GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

Kolkata-700016, the 11th February 2013

CORRIGENDUM

No. 1129/SP/A-12025/1-Geol/Notification/07/19A—In Partial modification of this office Notification No. 8391/SP to 8424/SP—7354 B to 7358B dated 13.06.2012/18.06.2012, the name of Shri Saurabh Kumar Rastogi (OBC) at Sl. No. 07 May be read as provisional due to non-receipt of verification report for OBC certificate. Other terms and conditions remain unchanged.

H. M. MISHRA
Sr. Administrative Officer
For Director General

Kolkata-700016, the 14th February 2013

No. 1175/SP/A-32013/3-DDG (Chem.)/2006/19B (Vol.-II)—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee, the President is pleased to appoint the following Directors (Chemistry) on promotion to the post of Deputy Director General (Chemistry) in the same Department and on pay according to rules in the PB-4: Rs. 37,400—67,000/- with Grade Pay of 10,000/- with effect from the date mentioned against each, on regular basis, until further orders:—

Sl. No.	Name	Date of promotion to the post of Deputy Director General (Chemistry)
1.	Shri V. M. Parate	13.04.2012 (AN)
2.	Shri R. S. Bains	13.04.2012 (AN)

C. MURALEEDHARAN
Director (Personnel)
For Director General

SURVEY OF INDIA

SURVEYOR GENERAL'S OFFICE

Dehradun-248001, the 28th January 2013

No. C-690/594—The undermentioned Senior Reprographers are hereby promoted as Assistant Manager (Map Reproduction) General Central Service Group 'B' Post (Gazetted) in Survey of India in PB-2 of Rs. 9,300—34,800/- + GP Rs. 4,600/- on regular basis with effect from the date (s) as shown against their names:—

Sl. No.	Name	Date of Promotion
1.	Shri C. Venkatacharya	21.09.2012
2.	Shri Krishan Singh (SC)	24.09.2012

SWARNA SUBBA RAO
Surveyor General of India

No. C-697/724-SOS (A) (1)—The undermentioned Stores Assistant (Group 'C') are hereby promoted as Assistant Stores Officer (G.C.S. Group 'B' Post) in Survey of India in PB-2 of Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay Rs. 4,200/- on regular basis with effect from the dates as shown against their name(s):—

Sl. No.	Name	Date of Promotion
1.	Shri Cruttibas Misra	23.10.2012
2.	Shri Ananda Das (SC)	09.11.2012
3.	Shri Mahinder Kumar Sharma	15.01.2013

SWARNA SUBBA RAO
Surveyor General of India

No. C-707/718-A—The undermentioned Office Superintendent is hereby promoted to the post of Establishment & Accounts Officer (GCS Group 'B' Gazetted) in Survey of India in PB-2 Rs. 9,300—34,800/- + 4,600/- Grade Pay on regular basis with effect from the date as shown against his name:—

Name	Date of Promotion
Shri M. L. Garg (SC)	07.08.2012

SWARNA SUBBA RAO
Surveyor General of India

MINISTRY OF COMMUNICATIONS &
INFORMATION TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS)

WIRELESS MONITORING ORGANISATION

New Delhi-110062, the 12th February 2013

No. A-32012/01/2012-Admn./174—The Competent Authority is pleased to appoint Shri K. P. Haridasan, Accountant of the Wireless Monitoring Organisation, Ministry of Communications & I. T., Department of Telecommunications, to officiate as Administrative Officer (Group B Gazetted) on adhoc basis at Western Region Headquarter, Mumbai in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay of Rs. 4,600/- for a period of one year i.e. w.e.f. 23.01.2013 to 22.01.2014 or till a regular candidate is appointed on deputation basis, whichever is earlier.

MAHA SINGH
Deputy Director

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

Mumbai-85, the 8th February 2013

Ref: PD/4(4)/2005-R-III (Part File)/2013/1933—Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints Shri Ravindra Vasant Bilgi, Private Secretary (Non-Secretariat) to the post of Senior Private Secretary with effect from the forenoon of February 04, 2013 in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay Rs. 4,800/- in this Research Centre until further orders.

SHAILAJA PRAKASAM
Dy. Establishment Officer

Ref: PD/4(4)/2005-R-III (Part File)/2013/1934—Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints Smt. Jayshree Sadashivan Nair, Private Secretary (Non-Secretariat) to the post of Senior Private Secretary with effect from the forenoon of February 04, 2013 in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay Rs. 4,800/- in this Research Centre until further orders.

SHAILAJA PRAKASAM
Dy. Establishment Officer

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY
RAJA RAMANNA CENTRE FOR ADVANCED TECHNOLOGY

Indore, the 15th February 2013

No. RRCAT/Admin/2012/R-805/199—The President is pleased to appoint the following officials on promotion to the Grade and Pay Band on the date as indicated against their names in Raja Ramanna Centre for Advanced Technology, Indore:—

Sr. No.	C.C. No.	Name	Present Grade (Pay Band + Grade Pay)	Promoted Grade (Pay Band + Grade Pay)	Promotion w.e.f (Forenoon)	Div./ Section
		S/Shri				
1.	521	Chandrashekhar Purushottam Navathe	Scientific Officer/H (PB : 4, Rs. 37,400— 67,000+GP Rs. 10,000/-)	Outstanding Scientist (HAG Scale of Rs. 67,000/- (annual increment @ 3%) Rs. 79,000/-)	20.12.12	ACBDD & LESD
2.	113	Pundlik Rama Hannurkar	-do-	-do-	-do-	RFSD & IOAPDD

K. RAMESH
Chief Admin. Officer

Indore, the 18th February 2013

No. RRCAT/Admin/2012/R-805/206—The President is pleased to appoint the following officials on promotion to the Grade and Pay Band on the dates as indicated against their name in Raja Ramanna Centre for Advanced Technology, Indore:—

Sr. No.	C.C. No.	Name	Present Grade (Pay Band + Grade Pay)	Promoted Grade (Pay Band + Grade Pay)	Promotion w.e.f (Forenoon)	Div./ Section
1.	766	Dr. Vinod Kumar Senecha	Scientific Officer/G (PB : 4, Rs. 37,400— 67,000+GP Rs. 8,900/-)	Scientific Officer/H (PB : 4, Rs. 37,400— 67,000+GP Rs. 10,000/-)	20.12.12	PLSCD
2.	656	Shri Harilal Savdasbhai Vora	-do-	-do-	26.12.12	LESD
3.	642	Shri Anandvardhan Shivram Joshi	-do-	-do-	20.12.12	LPD
4.	173	Dr. Sudhir Kumar Dixit	-do-	-do-	-do-	LSES
5.	263	Shri Rajesh Arya	-do-	-do-	-do-	SSLD
6.	272	Shri Shiv Dutt Sharma	-do-	-do-	-do-	ACDFS
7.	548	Shri Avinas Puntambekar	-do-	-do-	-do-	PLSCD
8.	688	Smt. Alpana Rajan	-do-	-do-	-do-	CD

B. K. JENA
Chief Admin. Officer

MINISTRY OF WATER RESOURCES

CENTRAL GROUND WATER BOARD

Faridabad, the 6th February 2013

No. 3-1741/2012-Sci.Estt./964—On the recommendations of the UPSC, Shri Atalanta Narayan Chowdhury has been appointed to the post of Assistant Chemist (Group 'B' Gazetted) in the PB-2 Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay Rs. 4,800/- per month plus usual allowance applicable thereon in the temporary capacity w.e.f. 28.12.2012 (F/N) and posted at CGWB, MER, Patna.

He will be on probation for a period of two years from the date of his joining which can be extended by the competent authority at his discretion.

This issues with the approval of the Competent Authority.

S. R. CHAUHAN
Administrative Officer

No. 3-1753/2012-Sci.Estt./969—On the recommendations of the UPSC, Shri Aneeshkumar.N has been appointed to the post of Assistant Chemist (Group 'B' Gazetted) in the PB-2 Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay Rs. 4,800/- per month plus usual allowance applicable thereon in the temporary capacity w.e.f. 31.12.2012 (F/N) and posted at CGWB, NWHR, Jammu.

He will be on probation for a period of two years from the date of his joining which can be extended by the competent authority at his discretion.

This issues with the approval of the Competent Authority.

S. R. CHAUHAN
Administrative Officer

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Kochi-682021, the 28th January 2013

No. 560(3)/SM/ROC-EKM/550/2013—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the following Companies

unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said companies will be dissolved :—

Sl. No.	Co. Reg. No.	Name of the Company
1.	14040	M/s. Zephyr Foods Private Limited
2.	14162	M/s. Hits Vision Private Limited
3.	14048	M/s. Middleclass Resorts Private Limited
4.	13993	M/s. Cochin Infotech Solutions Private Limited
5.	14055	M/s. Topic Tours India Private Limited
6.	13984	M/s. Euro India Tours and Investment Services Private Limited
7.	14217	M/s. Centre For Advocacy and Research in Environment Private Limited

K. G. JOSEPH JACKSON
Registrar of Companies
Kerala

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Kochi-682021, the 29th January 2013

No. 560(5)/FTE-2013—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of the following Companies have this day been struck off the Register and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	Co. Reg. No.	Name of the Company
1	2	3
1.	003186	M/s. H. L. Financial Consultants Management Services South India Private Limited
2.	026976	M/s. Hopkins Consultants Private Limited
3.	027725	M/s. Al-Nejah Travels and Haj Umra Services Private Limited
4.	025225	M/s. Tirtham Natural Flavours and Extracts Private Limited
5.	003553	M/s. Suryavilasom Kuries and Loans Private Limited
6.	022424	M/s. Rahul Nair Hospitality Private Limited
7.	024293	M/s. Sreekurumba Kuries (Kerala) Private Limited
8.	023943	M/s. Mowin Consulting Solutions Private Limited

1	2	3
9.	008577	M/s. Jasgo Constructions Co. Private Limited
10.	025431	M/s. Ikkroos Builders and Developers Private Limited
11.	029265	M/s. Cyan Properties Private Limited
12.	017942	M/s. Johnchith Natural Nutri Foods Private Limited
13.	012097	M/s. Hilal Hatcheries Private Limited
14.	026332	M/s. Haystack Realtors and Developers Private Limited
15.	010380	M/s. Adarsh Chitties and Traders Private Limited
16.	024588	M/s. Phoenix Gurukula and Educational Services Private Limited
17.	022919	M/s. EPV Solar Indis Private Limited
18.	023357	M/s. Eastwest Human Resource Solutions Private Limited
19.	004051	M/s. Jofas Kuries Private Limited
20.	018432	M/s. Transcend Chits Company Private Limited
21.	018490	M/s. Geo Construction Materials Consortium Private Limited
22.	010053	M/s. South Shore Chits and Finance Private Limited
23.	017932	M/s. Infusion Infotech Services Private Limited

K. G JOSEPH JACKSON
Registrar of Companies
Kerala

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies

Chennai, the 11th February 2013

No. 07529 to 82764/560(5)/FTE-2011—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies have this day been struck off from the Registrar and the said Companies will be dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1	2	3
1.	007529	M/s. S. K. Alloys Private Limited
2.	016699	M/s. Quality Building Materials Supplies Private Limited

1	2	3
3.	019737	M/s. Sri Sakthi Vilas Vaidyasala Private Limited
4.	030866	M/s. Bhandari Apparels Limited
5.	038830	M/s. Dimka Petro Products Limited
6.	038980	M/s. Pragati Information Technologies Private Limited
7.	039126	M/s. Kids Mart (India) Private Limited
8.	041286	M/s. Hemo Sea Foods Private Limited
9.	043483	M/s. Ansel Systems & Software Private Limited
10.	046144	M/s. Accord Pest Solutions Private Limited
11.	049195	M/s. Ranhill (India) Private Limited
12.	052820	M/s. Jeevan Infomedia Private Limited
13.	052862	M/s. SMS Publishing Services Private Limited
14.	053219	M/s. Chennanimation and Digital Media Private Limited
15.	054182	M/s. Memorial Cancer Hospitals & Research Private Limited
16.	054275	M/s. Gideon Pharmaceuticals Private Limited
17.	055284	M/s. S & S Rubber Estate Private Limited
18.	055288	M/s. Sunbeam Formulations Private Limited
19.	055364	M/s. KM Sterile Solutions Private Limited
20.	055761	M/s. Murugan Arul Enterprises Private Limited
21.	056008	M/s. Ayngaran Real Estates Private Limited
22.	056145	M/s. Svel Engineering Private Limited
23.	056218	M/s. Sri Saastha Financial Solutions Private Limited
24.	056305	M/s. Udhayam Properties Private Limited
25.	056354	M/s. Mehar Steel Rerolling Mill Private Limited
26.	056562	M/s. MRS Techno Soft Private Limited
27.	056631	M/s. Cyberspace Solutions India Private Limited
28.	056800	M/s. Lobamudra EXIIM Private Limited
29.	057035	M/s. Equinox Interactive Systems Private Limited

1	2	3
30.	057078	M/s. Stamen Health Care (India) Private Limited
31.	057213	M/s. Manor Travels (Chennai) Private Limited
32.	057562	M/s. Indo Hair Products Private Limited
33.	057610	M/s. IMK Travels and Tours Private Limited
34.	064605	M/s. Dakshin Engineering & Construction Private Limited
35.	066311	M/s. TNVK Cable and Mediavision Private Limited
36.	067959	M/s. Fifth Avenue Holdings Private Limited
37.	068245	M/s. Ayerindia Advisory Services Private Limited
38.	068318	M/s. Axion Medi Tours India Private Limited
39.	069407	M/s. Basoon Innovative Infra Private Limited
40.	069505	M/s. Rendezvous India Hospitality Private Limited
41.	070024	M/s. Fifth Avenue Apparels Private Limited
42.	071634	M/s. Hot Shoe Entertainment Private Limited
43.	071738	M/s. Hiresh Mines and Ores Private Limited

1	2	3
44.	072029	M/s. Sovereign Education Campus Private Limited
45.	072532	M/s. Techsol Safety Equipments Private Limited
46.	073233	M/s. Eagle Ridge Services Private Limited
47.	073783	M/s. United Alpha Dhona Foods Trading Private Limited
48.	074540	M/s. Storm Fashion Company Private Limited
49.	077077	M/s. GRN Labour and Safety Training Private Limited
50.	077242	M/s. Brandaide Demiurgic India Private Limited
51.	077683	M/s. Mednob Healthcare India Private Limited
52.	078166	M/s. Subaswam Mobilabs Private Limited
53.	079084	M/s. Mals Exports & Imports Private Limited
54.	082239	M/s. Golden Plates Speciality Food Private Limited
55.	082764	M/s. Amonix India Private Limited

K. LATHA PARIMALA VADANA
Deputy Registrar of Companies
Tamilnadu

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2013
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2013